


3.3.1 - Collection of rare books,

Manuscripts, special reports or any other knowledge
resource for library enrichment



वाजसनेय संहिता. अनुकमजिगा
 पुर्वेर्ध^c
 उत्तरर्ध^c

अध्या १६३८
 १६३२

संहि^०
 १६३२
 नोर्ध्वं दान्तेन मंत्रोक्तिं विधेम ॥१६॥ हिरण्मयेन पात्रेण ॥ सत्यस्या
 पितृभ्यः सप्तमं ॥ बोमावादिष्ये पुरुषः सोमावहम् ॥१७॥ ॥ उं ३ रवं ब्रह्म ॥
 इति श्रीवाजसनेयसंहितायां चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ॥ ४० ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥
 कल्याणमस्तु ॥ श्रीशुभं न वतु ॥ संवत् १९३२ नामाघशुक्ल ३ चन्द्रवा
 मरे संपूर्णा मिदं पुस्तकं विप्रप्रथिलस्मरणमत्रात्मपरतार्थं ॥ श्री ० ॥
 सपितृगविद्यासरणो देहीरासहस्रज्ञाति ॥ श्रीवलभीपुरमावास्तव्यं ॥

१३२

धुरेदेवशरुजेकाम्या गव्ये सोमानं ब्राह्मणस्य त्यं चंगायत्रं ब्रह्म
 णस्यति मेर्ध्वं धातिथिर्वा महित्रीणां सत्यधतिर्वा सणि रादित्ये देवते
 चंगायत्रं पथि स्वस्य यनं कदाचने इतीपथ्यावहती मधुछंदास्तस
 विबुर्विश्वा मित्रः सावित्री गायत्री परिने वा मदेवः आग्नेयी मनिरु
 स्तं गायत्री ॥१२॥ सुध्वं केपस्थानमासुरे रापि म् सुवः स्वः प्रवस्यदु
 पस्थानमाग तोपस्थानं चादित्यस्यार्धं नर्यं गार्धं पत्यः श ० स्याह व
 नीयो यर्धं दक्षिणापि रागन्माहवनी यानुष्टुभयमग्निर्न्यं कु सारिणी
 वहती गार्धं पत्यो यमस्तिरन्वाहो र्यं पचनो नुष्टुभगद्मात्रिष्टुष्विरा

अनुक्तं

५

नानाप्युपस्थानं च देवानामार्धं सुप्रयंतप्रत्यनुवाकः आद्ये देः अग्ने
 यो गायत्रा बुपवत्या गोतमो राहू गणो म् ६ चत्या विरुपुग्मा बो मरघज
 रोरार्धं त्रीष्टुभमयं ते देवश्च वा देववातश्च भास्ता वाग्नेयी मनुष्टुभम
 यमिह वा मदेवो जगती मस्पप्रना मवसारोग व्याकारिणी वाष्ययेदे
 वत्या वा गायत्री तन्पाः आग्नेयानी धानाः आग्नेयी म् ७ हापत्तिस्त्र
 वसाना ॥१२॥ चित्रावसारो त्रिदेवत्समषयोपस्यत् ॥ संत्वमातेयसंधस्य शिवोज
 रिवतीः संहिते त्रैणी गव्याप्युपत्वाग्ने सं चंगायत्रं मधुछंदावैश्वा
 मित्रे गने त्वं वत स्वादिपदाः आग्नेयीर्बधुः सुबं धुः श्रुतबंधुर्विप्रध

शिवोज

५

॥ श्रीः ॥

उपनिषत्पञ्चरत्न

अर्थात्
ब्रह्मोपनिषद्, कैवल्योपनिषद् सर्वोपनि-
षत्सार ब्रह्मविन्दूपनिषद् और
नादविन्दूपनिषद्

भाषानुवादसहित

जिसको

ऋ० कु० रामस्वरूप शर्माने

सम्पादन कर

सनातनधर्म प्रेस

मुरादाबादमें छापकर प्रकाशित किया

१९२१

॥ श्रीः ॥

सामवेदीया-

❀ छान्दोग्योपनिषद् ❀

अन्वय, पदार्थ और भाषाटीका सहित


जिसको-

मुरादाबाद निवासी, सनातनधर्मपताका

सम्पादक, ऋषिकुमारोपनामक

पण्डित रामस्वरूप शर्माने

सम्पादन कर



“सनातनधर्म” यन्त्रालय

मुरादाबादमें छापकर

प्रकाशित किया

१९१९

श्री

कवीरत्न गिरधर कृत.

रामायण.

सातें कांड बीनो सहित.

वृत्ती मत उरथी सुधारी सुंदर बीनो साथे.

छपायी प्रसीद्ध करनीर.

मल्लादेव रामचंद्र मुष्टे पुस्तकालय.

प्रथम छपाय मजगावाड.

आजवी ७ भा.

मत. ४२००


संवत् १९६२



श्री बाबा रुपनाथदास रामसनेही
विरचित

विश्रामसागर

सातवीं बार



लखनऊ

केसरीदास सेठ द्वारा

नवलकिशोर प्रेस में मुद्रित और प्रकाशित

सन १९२१ ई०

॥ श्रीः ॥

वैद्यजीवनम् ।

भिषग्वर्यलोलिम्बराजकविकृतम् ।

श्रीमद्यतिवर्यसुखानन्दकृतया दीपिकया ।

पं० मिहिरचन्द्रकृतभाषाविवृत्या च समन्वितम् ।

खेमराज श्रीकृष्णदासश्रेष्ठिना

मुम्बय्यां

स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर” (स्टीम्) मुद्रणालये

मुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

संवत् १९६७, शके १८३२.

अस्य ग्रन्थस्य पुनर्मुद्रणादयोऽधिकाराः १८६७ वार्षिक २५ तमराज-

नियमानुसारेण “श्रीवेङ्कटेश्वर” यन्त्रालयाध्यक्षावोनाः सन्ति ।

श्री. जी. वि. सि. म. ल.

इतिहास पत्रिका

Pub Year 1893

॥ श्रीः ॥

॥ ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥

श्रीशुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनवाजसनेयिना

आह्निकसूत्रावलिः ।

पुरन्दरोपाह्वविट्टलात्मजवैद्यनारायणशर्मणा

अनेकग्रन्थेभ्यः सङ्गृहीता ।

तस्या इयं विशिष्टसङ्ग्रहयुता

आवृत्तिः अष्टमी ।

गुर्जरोपाह्वजनार्दनात्मजत्र्यंबकशर्मणा

मुम्बापुर्याम्

निर्णयसागराख्यमुद्रणयन्त्रालये मुद्रापयित्वा

प्राकाश्यं नीता च ।

शकाब्दाः १८३८ ज्येष्ठमासः ।

संवत् १९७३

अथ

श्रीशुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनवाजसनेयिनां
आह्निकसूत्रावलिः ।



शकाब्दाः १८३८ विक्रमाब्दाः १९७२ आषाढमासः ।

किंमत २ रुपये.

4900

The Department of Public Instruction, Bombay

ANU-BHĀSHYA

OF

VALLABHĀCHĀRYA

EDITED

WITH A NEW COMMENTARY, THE BĀLBODHINĪ,

BY

PANDIT SHRIDHAR TRYAMBAK PĀTHAK,
Shāstri, Deccan College, Poona.

PART I TEXT

First Edition ; 1000 Copies.


1921.

Price Three Rupees and Four Annas.

॥ श्रीः ॥

श्रीमद्रत्नभाचार्यप्रणीतं

श्रीमद्गुभाष्यम् ।



पाठकोपाह्वश्रीधरशर्मविरचितया
वालवोधिन्धारुयटीकया समेतम् ।

तच्च

मुम्बापुरस्थराजकीयग्रन्थशालाधिकारिणा प्रकाशितम् ।

शाके १८४३

ख्रिस्ताब्दे १९२१

प्रथमयमङ्कनावृत्तिः

मूल्यं सपादं रूप्यकत्रयम्

॥ अथ श्रीनरसैमैतानीचातुरीछो

अखीतंगैरावकुमोहनकुलः

२०१२

બુદ્ધ ગ્રંથમાળા



ગ્રંથ નં. ૬૦૧.

સ્વામી રામતીર્થ

એમ. એ. એમના સદુપદેશ,

ગ્રંથ ૧ લો.



અગાઉ નીકળેલા ભાગ ૧ થી ૫ નો સંગ્રહ
બીજી આવૃત્તિ-પ્રત ૨૬૦૦.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્તા,

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી

મંત્રી, બિશુ-અખંડાનંદ.

કાલ્યાદેવી-મુખ્યાઇ.

મૂલ્ય રૂ. ૧, સોનેરી રૂ. ૧૧, પો. ના બુદ્ધ.

બહારના વેચનાર પોષ્ટેજ ભેગું વધુ લેશે.

વિ. સં. ૧૯૭૦-૮. સ. ૧૯૧૪.

आध्यर्ष मुजने पाय ॥६॥ सुध्य बुध्य तारी सांमला ॥ कोणे हरी सा
 ने सांम ॥ नैणे ते आंसु कां पडे ॥ वैस्य वना विसरांम ॥७॥ अंगे
 कोटी अनंग सोभा ॥ रोम रोम अभिरांम ॥ तमे कला पाठी कां रया ॥
 ॥ समरध श्री घन सांम ॥६॥ सुषनो ते सार श्रुती कहे ॥ आनंद
 कंद जयी नास ॥ केश्य कारण कहो मुजने ॥ हुंता मारी दास ॥९॥
 ॥ माधव तारा मंननी ॥ मुंने केने करुं णानी धान ॥ कैते कांम ण
 गारिये ॥ तारी हरी सुध्य बुध्य सांम ॥१०॥ ते हीरे लावुं ते हुने ॥ जेना
 रुं जिवंत ॥ निमष मां लावुं नाधजी ॥ लाविक रुं परसंन ॥११॥
 मही धर मन मां धरो धीरज ॥ त ही आकला तुं कांम ॥ नर सैया
 नाना धजी ॥ मुंने कहे ते तुनांम ॥१२॥ पहे ॥१॥ वलण

श्री गणेशाय नमः ॥ अधनर से मे तानी चातुरी दिख्यते रा ब
 सांमेरी ॥ सुषी जी स सु णारे से ए जी ॥ सांने भरो छो नं मे ने ए
 जी ॥१॥ सु दुख छे त मारे नाधजी ॥ याला जी कोने मुजने यात
 जी ॥२॥ ठालु ॥ वात कोने वाल मा ॥ कंध पई रया छे उरास ॥ सांने
 काजे सांमला ॥ मुख मुको छो निसयास ॥३॥ चदनता रू विठला ॥
 कर मां एं सामाट ॥ कपोल कर कां दै रया ॥ सुउपन्यो छे उचाट ॥
 ५॥ माय जी रे तारु वदन जोतां ॥ जनम दु क्तित जाय ॥ श्री नाध
 जिता रुं नांम लेतां ॥ पतीत पावन पाय ॥५॥ जेनें करुणा होय ॥१॥
 त मारी ॥ तेने सुपने संकट जाय ॥ तमे एम आतुर कांधया ॥